



## Translation from Spanish into the Hindi language

### पृष्ठ संख्या 1:

पासपोर्ट  
पासपोर्ट  
पासपोर्ट  
राजनयिक पासपोर्ट  
राजनयिक पासपोर्ट  
राजनयिक पासपोर्ट

प्रकार (दस्तावेज़ का)  
प्राधिकरण कोड  
ई.आर.एम.एल. पासपोर्ट संख्या  
पिता का नाम  
धारक  
लिंग  
मौके पर जारी किया गया

जारी करने की तारीख  
प्रेषण की तारीख  
अवधि समाप्ति की तारीख  
व्याख्यात्मक नोट  
जारी करने का कारण  
प्राधिकरण  
मोहलत

### पृष्ठ संख्या 2:

कानून द्वारा विचारित बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पालन करते हुए, मैं इसके द्वारा खुद को स्वतंत्र घोषित करता हूँ और स्थापित करता हूँ ERRANT REPUBLIC MENDA LERENDA (मेंडा लेरेन्डा का भटकता हुआ गणराज्य), राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में स्वागत करते हुए जिस सतह पर मेरा संपर्क है और मेरी अदृश्य सीमाएं मेरे भौतिक समोच्च हैं, सबसे बड़े दायरे और आपूर्ति के साथ मानसिक होने के नाते, ईमानदारी, सामान्य ज्ञान पर आधारित अन्य प्राधिकरणों या विदेशी कानूनों को मान्यता नहीं देना और सहयोग रचनात्मक.

### पृष्ठ संख्या 3:

साथी जानवर (पालतू जानवर)  
पहचान संख्या  
प्रजातियां  
नस्ल (नस्ल)

### पृष्ठ संख्या 4:

बच्चे

### पृष्ठ संख्या 5:

व्याख्यात्मक नोट्स  
Errant Republic Menda Lerenda/ मेंडा लेरेन्डा का भटकता हुआ गणराज्य (E.R.M.L./ ई.आर.एम.एल., संक्षिप्त नाम)

### पृष्ठ संख्या 6:

स्थान (घर का)  
दुर्घटना के मामले में कृपया सूचित करें  
पारिवारिक कबीला  
चिकित्सक  
नियोजता या खुद की कंपनी

### पृष्ठ संख्या 7:

संबद्धता: राजनयिक कोर, संगठन, कंपनियां

### पृष्ठ संख्या 9:

वीजा

### पृष्ठ संख्या 29:

ध्यान दीजिए:

ई.आर.एम.एल. एक मोबाइल संप्रभु राज्य, जो स्थायी रूप से अपने स्वयं के राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित है, मान्यता प्राप्त मॉटेवीडियो कन्वेंशन द्वारा संरक्षित है, इस दस्तावेज़ में जोड़े गए प्रत्येक वीजा को नोकरशाही औपचारिकता माना जाएगा और धारक को उसकी स्थिति से परे किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में जमा करने के लिए नहीं और / या दक्षताओं, बशर्त कि परमेश्वर के सिद्ध नियम का उल्लंघन न किया गया हो।

यह दस्तावेज़ अहस्तांतरणीय है, यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका मूल्य है, हानि, चोरी और/या विनाश के मामले में कृपया ई.आर.एम.एल. (रा और अमांडा द्वारा) को सूचित करें।

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature





**TRIDINDIA**  
IT TRANSLATION SERVICES PVT. LTD.  
ISO 9001: 2015 | NSIC Certified | MSME Certified

Corp. ID No.: U72300UP2011PTC047795, GSTIN No.: 09AAECT0870A1ZN  
Ph- +91-120-4257803, Cell-+91-8527599523  
Website - www.tridindia.com, Email - info@tridindia.com

## Translation from Spanish into the Hindi language

मालिक जो कपटपूर्ण उपयोग करता है या परमेश्वर के पूर्ण नियम के विपरीत है, ई.आर.एम.एल. द्वारा दी गई सुरक्षा खो देगा। और वर्तमान कानून के अनुसार संसाधित किया जा सकता है।

### पृष्ठ संख्या 31:

इस दस्तावेज़ की वैधता बढ़ा दी गई है:

दिनांक: तक

दिनांक: पर किया गया:

ई.आर.एम.एल. के एक आधिकारिक एजेंट के हस्ताक्षर और मुहर। इस दस्तावेज़ की वैधता बढ़ाने के लिए संस्थागत ई.आर.एम.एल. की आधिकारिक मुहर

### पृष्ठ संख्या 32:

नोट्स

यात्रा नोट

अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी

स्पेनिश

फ्रेंच फ़्रांसीसी

पुर्तगाली पुर्तगाली

चीनी

हिंदी

रूसी

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature





## Translation from Spanish into the Hindi language

### ईआरएमएल कानून की बुनियादी बातें

सामान्य निपटान में डाउनलोड, प्रस्तुति और उपयोग के लिए पूर्ण प्रमाण.  
औचित्य: ठोस कारणों, गवाहों या दस्तावेजों के साथ साबित करें.

1/

26 दिसंबर, 1933 की मोंटेवीडियो कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय संधि अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून का हिस्सा बनकर राज्य की परिभाषा स्थापित करती है.

2/

**अनुच्छेद 1** में एक राज्य के विशिष्ट मानदंड स्थापित करता है:

**अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक व्यक्ति के रूप में राज्य को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:**

I. - स्थायी जनसंख्या।

II. - निर्धारित क्षेत्र।

III. - सरकार।

IV. - अन्य राज्यों के साथ संबंधों में प्रवेश करने की क्षमता

3/

**अनुच्छेद 3** इस प्रकार में विचार करता है कि:

राज्य का राजनीतिक अस्तित्व अन्य राज्यों द्वारा इसकी मान्यता से स्वतंत्र है.

4/

14 अक्टूबर, 1999 को, चुनाव आयोग के सदस्य देश के सक्षम मंत्रालय को स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में सूचित किया जाता है, दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड संख्या B-36590 के साथ स्वीकार किया जाता है। (दस्तावेज संख्या 1)

5/

दस्तावेज B-36590 एकीकृत, उजागर और अपने परिशिष्टों में अनुच्छेद 1 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन में आवश्यक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बताता है I-II-III.

6/

15 दिसंबर, 1999 को, 12 अप्रैल के रॉयल लेजिस्लेटिव डिक्री 1/1996 के अनुसार एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, क्योंकि दस्तावेज बी-36590 को आधिकारिक तौर पर स्वीकार और पंजीकृत किया गया है, इसके पाठ के साथ अनुमोदित किया जा रहा है रिकॉर्ड संख्या 1999/38/25145 के साथ (दस्तावेज संख्या 2)

7/

25 जनवरी 2000 को, मंत्रालय एक आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी करता है जिसमें दस्तावेज B-36590 की अनुकूल कानूनी योग्यता को सूचित किया जाता है, जिसके अधिकार सामान्य रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं। (दस्तावेज संख्या 3)

8/

मंत्रालय से आधिकारिक प्रतिक्रिया के साथ उक्त दस्तावेज, प्रस्तुति / स्वागत का आदान-प्रदान, राज्यों के बीच संबंधों की क्षमता दिखाते हुए दोनों पक्षों के अंतर्संबंध को मान्यता देता है।

9/

पिछला बिंदु (8) **अनुच्छेद 1** की पुष्टि करता है जो कि इस प्रकार है - **परिशिष्ट IV** मोंटेवीडियो कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार: **IV. — अन्य राज्यों के साथ संबंधों में प्रवेश करने की क्षमता**

10/

उपरोक्त को सत्यापित करने के बाद, अंक 5 और 9 साबित करते हैं कि दस्तावेज **B-36590**, **मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के 4 उपदेशों का अनुपालन करता है, जो कानून के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विचार की जाने वाली सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।**

I. — स्थायी जनसंख्या।

II. - निर्धारित क्षेत्र।

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature







## Translation from Spanish into the Hindi language

III. -सरकार।

IV. - अन्य राज्यों के साथ संबंधों में प्रवेश करने की क्षमता।

अनुपूरक अनुबंध:

1/

“हम घोषणा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणाओं को प्रतिबंधित करता है।”

22 जुलाई 2010 की स्वतंत्रता की घोषणा पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सजा।

2/

“प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र निधिर्णण का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर, वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति स्थापित करते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी प्रदान करते हैं।”

16 दिसंबर, 1966 के संकल्प 2200 ए (XXI) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 167 राज्यों द्वारा अनुसमर्थित।

30 अप्रैल 1977 के बीओई संख्या 103 में अनुमोदित. BOE-A-1977-10733 <https://www.boe.es/buscar/dस्तावेज़.php?id=BOE-A-1977-10733>

नगर पालिका की आरएई परिभाषा: किसी स्थान, क्षेत्र या देश या स्वतंत्र सरकार वाले देश के लोगों का समूह।

### दस्तावेज़ 1

बौद्धिक संपदा के अधिकारों और कानून द्वारा परिकल्पित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में, मैं एतद्वारा खुद को स्वतंत्र घोषित करता हूँ और इरेंट रिपब्लिक मेंडा लेरेन्डा की स्थापना करता हूँ, राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में स्वागत करता हूँ जिस सतह पर मेरा संपर्क है और मेरी अहिंसक सीमाएं मेरी हैं भौतिक समोच्च, सबसे बड़े दायरे और आपूर्ति के साथ मानसिक होने के नाते, ईमानदारी, सामान्य ज्ञान और रचनात्मक सहयोग के अलावा अन्य अधिकारियों या विदेशी कानूनों को मान्यता नहीं देना। हस्ताक्षर:

सरकार की पूर्ण ERRANT REPUBLIC OF MENDA LERENDA (मेंडा लेरेन्डा का भटकता हुआ गणराज्य)

100% आम सहमति से स्वीकृत (दुनिया के सभी राज्यों में सबसे बड़ा)

\* मेंडा लेरेन्डा का भटकता हुआ गणराज्य किसी को भी अधिकृत करता है जो अपनी स्वतंत्रता को उसी नाम का उपयोग करने के लिए स्व-घोषित करना चाहता है।

इस दस्तावेज़ के वाहक के रूप में श्रेय दिया गया है

मेंडा लेरेन्डा का भटकता हुआ गणराज्य का सम्प्रभुत्व

मेंडा

लेरेन्डा

धीरज से हम जीतते हैं

वैधता: अनिश्चित

जारी करने की तारीख: 01-04-1.999

यह पहचान विदेशों में राजनयिक के रूप में इसके मालिक का अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वागत करती है।

36590

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature





## Translation from Spanish into the Hindi language

### दस्तावेज़ 2

#### बौद्धिक संपदा का सामान्य पंजीकरण

12 अप्रैल के रॉयल लेजिस्लेटिव डिक्री 1/1996 के प्रावधानों के अनुसार, जो बौद्धिक संपदा कानून के पुनर्रचना पाठ को मंजूरी देता है, यह इस सामान्य रजिस्ट्री में पहले पंजीकरण की प्रस्तुति की निम्नलिखित संख्या, तिथि और समय के साथ पंजीकृत है, अधिकार की वस्तु और उसी के शोषण के आर्थिक अधिकारों के स्वामी.

संख्या : 1999/38/25145 प्रस्तुति तिथि : 14-10-1999 समय : 11:15

पंजीकरण की प्रभावी तिथि : 14-10-1999

आर.पी.आई. संख्या : B-36590

मैट्रिड में, दिसंबर के पंद्रहवें दिन तथा एक हजार नौ सौ निन्यानबे के वर्ष में

(मुहर)  
शिक्षा और संस्कृति  
मंत्रालय  
बौद्धिक संपदा का  
सामान्य पंजीकरण

(मुहर)

सामान्य पंजीयक,

(हस्ताक्षरित)  
मैनुअल सांचो सेरिया

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature





**TRIDINDIA**  
IT TRANSLATION SERVICES PVT. LTD.  
ISO 9001: 2015 | NSIC Certified | MSME Certified

Corp. ID No.: U72300UP2011PTC047795, GSTIN No.: 09AAECT0870A1ZN  
Ph- +91-120-4257803, Cell-+91-8527599523  
Website - www.tridindia.com, Email - info@tridindia.com

## Translation from Spanish into the Hindi language

दस्तावेज़ 3

(सरकारी लोगो)  
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय  
बौद्धिक संपदा  
का सामान्य पंजीकरण

जुरबारान, 1  
28010 मैड्रिड

बौद्धिक संपदा का  
सामान्य पंजीकरण  
**25 जनवरी 2000**  
सदीदा संख्या : 180

पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन के संबंध में: बी -36590, जिसे 10/14/99 को कैटेलोनिया, बार्सिलोना कार्यालय के क्षेत्रीय रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया गया है, मैं आपको सूचित करता हूँ कि उसने एक अनुकूल कानूनी योग्यता प्राप्त की है और कहा अधिकार है बौद्धिक संपदा के सामान्य पंजीकरण में पंजीकृत किया गया है।

संबंधित शिलालेख का एक साधारण नोट इसके साथ संलग्न किया गया है.

मैड्रिड, 21 जनवरी 2000

(मुहर)

शिक्षा और संस्कृति  
मंत्रालय  
बौद्धिक संपदा का  
सामान्य पंजीकरण

विभाग प्रमुख  
पंजीकरण योग्यता

जोस एंटोनियो लोपेज़ कॉन्स्टेंटे द्वारा हस्ताक्षरित

This is a true and correct translation of the document from Spanish to Hindi Language.  
Scanned copy of the source document is attached.  
Mandatory to present original document along with this Translated document for various purposes.



Authorized Signature

